

संभल में नकली डीजल-पेट्रोल बनाने के धंधे का भंडाफोड़, पांच गिरफ्तार

हिन्दुस्तान टीम, संभल

Last updated: Thu, 09 Apr 2020 12:11 AM

[हिंदी न्यूज](#) > [उत्तर प्रदेश](#) > [संभल](#) > संभल में नकली डीजल-पेट्रोल बनाने के धंधे का भंडाफोड़, पांच गिरफ्तार



संभल जनपद में गुन्नौर कोतवाली पुलिस ने अवैध तरीके से नकली डीजल और पेट्रोल बनाने के बड़े धंधे का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस धंधे को संचालित कर रहे पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गये लोगों में तीन आरोपी प्रयागराज, गोंडा और बस्ती के रहने वाले हैं। मौके से भूमिगत टैंक, एक टैंकर के साथ ही बारह हजार लीटर से भी ज्यादा अपमिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ बरामद किया गया।

पुलिस को सूचना मिली थी कि गुन्नौर तहसील इलाके में नकली डीजल और पेट्रोल बनाने वाला बड़ा गिरोह सक्रिय है जो यहां नकली पेट्रोलियम पदार्थ बनाकर पूरे प्रदेश में सप्लाई कर रहा है। सीओ डा. कृष्णकांत सरोज ने बताया कि पुख्ता सूचना जुटाने के बाद पुलिस ने मंगलवार की रात को गिरोह की धरपकड़ के लिए आपरेशन चलाया। पुलिस टीम ने क्षेत्र के गांव इटउआ हीरापुर में विजेंद्र सिंह के घर छापेमारी की। यहां विजेंद्र सिंह अपने साथी वसीम निवासी वडाला मुंबई, शाकिर निवासी धूमनगंज इलाहाबाद, रामसजीवन निवासी मनकापुर गोंडा, और रियाज अहमद निवासी घरसोइया जिला बस्ती के साथ अपमिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ तैयार करता हुआ मिला। पुलिस ने इन सभी पांचों लोगों को पकड़ लिया। पुलिस ने मौके से एक टैंकर, एक भूमिगत टैंक, पेट्रोलियम पदार्थ से भरे आठ ड्रम, छग ड्रम खाली व 12500 लीटर अपमिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ बरामद किया। सीओ ने बताया कि बस्ती के पेंदी रुधौली निवासी अब्दुल कलाम और रसूलपुर शहरी निवासी शाहिद अली अभी फरार हैं जो कि इस गिरोह में शामिल हैं।

रिफाइनरी के टैंकरों से खरीदते थे डीजल-पेट्रोल

पुलिस गिरफ्त में आए लोगों ने स्वीकार किया कि वह मथुरा रिफाइनरी से ट्रक लेकर जाने वाले चालकों से सस्ते दामों पर एक दो ड्रम डीजल और पेट्रोल खरीद लेते थे। उसमें केमिकल और केरोसिन आयल मिलाकर डीजल तथा पेट्रोल का बड़ा स्टॉक तैयार लेते थे। बताया कि वह पिछले काफी दिनों से यह धंधा चला रहे थे।

Source: <https://www.livehindustan.com/uttar-pradesh/story-up-board-10th-and-12th-classes-will-run-on-doordarshan-from-tomorrow-3182395.html>